



**रामाज्ञा स्कूल नौएडा**  
**आठ/ सिल्वर जोन/(2018-19)**  
**ओलम्पियाड अभ्यास कार्यपत्रक**

- गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये –

वर्तमान समय में टेलीविजन मनोरंजन का लोकप्रिय और सुलभ साधन है | आज भारत के लगभग हर शहर और गाँव में इसका बोलबाला है | इसका अविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन एल . बेयर्ड ने किया था | भारत जैसे विशाल विकासशील देशों के लिए टेलीविजन एक वरदान के समान सिद्ध हो रहा है | यह मनोरंजन के साथ – साथ ज्ञान में भी वृद्धि करता है | आज टेलीविजन के लगभग 100 से 150 चैनलों पर विविध कार्यक्रम प्रसारित किये जाने लगे हैं | इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर भी दिखाई देने लगा है | हमें बाज़ार में उपलब्ध उत्पादों की जानकारी अब बड़े आराम से घर बैठे ही मिल जाती है |

1. टेलीविजन का अविष्कार किसने किया ?

(क) मि. जॉन (ख) जॉन एल . बेयर्ड

(ग) मार्कोनी (घ) थॉमस

2. भारत के शहर और गाँव में आज किसका बोलबाला है?

(क) टेलीविजन (ख) रेडियो

(ग) बल्ब (घ) कार

3. विकासशील देशों के लिए टेलीविजन क्या सिद्ध हुआ ?

(क) घातक (ख) अभिशाप

(ग) ऐश्वर्यवान (घ) वरदान

4. टेलीविजन किसकी वृद्धि करता है ?

(क) ज्ञान (ख) विज्ञान

(ग) मनोरंजन (घ) इतिहास

5. आज कितने चैनलों पर कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा है ?

(क) 200 से 220 (ख) 100 से 120

(ग) 70 से 90 (घ) 100 से 150

6. वह काम कर रहा है | में काल है -

(क) वर्तमान काल (ख) भविष्यत् काल

(ग) भूत काल (घ) क और ख दोनों

7. शहर में रहने वाला |

(क) शहरी (ख) शहारी

(ग) देहाती (घ) ग और ख दोनों

8. देशज शब्द नहीं है -

(क) हीरा (ख) समोसा

(ग) लोटा (घ) स्कूल

9. जिनका उच्चारण कंठ से हो,उसे कहते हैं ?

(क) तालव्य (ख) कण्ठ्य

(ग) मूर्धन्य (घ) दन्त्य

10. आँख मारना का अर्थ है -

(क) इशारा करना (ख) निंदा करना

(ग) दूर रहना (घ) सपना देखना

11. सदैव का संधि - विच्छेद है -

(क) सदै + एव

(ख) स + एव

(ग) सद् + एव

(घ) उपरोक्त सभी

12. भाई-बहन में समास है -

(क) द्वंद्व

(ख) तत्पुरुष

(ग) कर्मधारय

(घ) बहुव्रीहि

13. काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है -

(क) अतिशयोक्ति

(ख) यमक

(ग) अनुप्रास

(घ) उत्प्रेक्षा

14. ' राम ' संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है ?

(क) जातिवाचक

(ख) द्रव्यवाचक

(ग) समूहवाचक

(घ) व्यक्तिवाचक

15. ' मान ' का विलोम है -

(क) अपमान

(ख) सम्मान

(ग) संस्कार

(घ) सामान

16. ' अहंकार ' का पर्यायवाची शब्द है -

(क) उल्लास

(ख) गर्व

(ग) दया

(घ) अम्बर

17. प्रातः जगावत् गुलाब चटकारी दे मदन महीपज्जु को बालक वसंत ताहि में किस रस का प्रयोग हुआ है ?

(क) वीर रस

(ख) वात्सल्य रस

(ग) वियोग रस

(घ) श्रृंगार रस

18. 'साड़ी ' का बहुवचन रूप है -

(क) साड़ीयाँ

(ख) साड़ी

(ग) साड़ीए

(घ) साड़ियाँ

19. 'सं' किस कारक का चिह्न है -

(क) कर्म

(ख) कर्ता

(ग) करण

(घ) अपादान

20. दुकानदार ..... टमाटर तौल रहा है |

(क) दो किलो

(ख) विशाल

(ग) दर्जन

(घ) लीटर